

## मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

### अल्पकालीन निविदा सूचना

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए प्राधिकरण की शर्तों पर मुहरबन्द निविदायें दिनांक 02.07.2015 को दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक सचिव कक्ष/प्राधिकरण सभागार में रखे बाँक्स में प्राप्त की जायेंगी तथा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (यदि होे), खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र, निविदा प्राप्ति तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) में क्रय किये जा सकते हैं। निविदा खरीदते समय ही धरोहर धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बन्धक हों, जमा करानी होगी। प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि अलग-अलग जमा करानी होगी। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने, स्वीकार करने एवं कार्य को कई ठेकेदारों में विभाजित करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 में निहित होगा तथा किसी भी स्थिति में उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 का निर्णय अंतिम होगा ।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मू (5: वैट) सहित	ठेकेदार पंजीकृत श्रेणी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1-	गोवर्धन में सेमीमास्ट एवं सोडियम लाइट (250 वाट) की मरम्मत तथा नई स्ट्रीट लाइट/फ्लड लाइट की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य ।	6,44,007.00	65,000.00	315.00	डी	15 दिन
2-	रूक्मणी विहार योजना में एल.आई.जी./ई.डब्लू.एस. ब्लाकों में रैम्प हेतु आर.सी.सी. का कार्य ।	2,66,206.60	27,000.00	210.00	डी	दो माह
3-	चैतन्य विहार आवासीय योजना, फेस-प्रथम, वृन्दावन में सड़क, सीवर, नाली इत्यादि की सफाई का कार्य ।	5,76,000.00	58,000.00	315.00	डी	एक वर्ष
4-	रूक्मणी विहार आवासीय योजना में सैक्टर-3 व 2 में स्थित एल.आई.जी. व ई.डब्लू.एस. भवनों के सम्मुख सड़क, नाली, सीवर लाईनों एवं पार्को इत्यादि की सफाई का कार्य।	10,61,340.00	1,06,200.00	525.00	सी	एक वर्ष
5-	राधापुरम आवासीय कालोनी, वृन्दावन रोड नियर बिड़ला मन्दिर रेडियो कालोनी स्थित	12,37,766.00	1,24,000.00	525.00	सी	दो माह

	नाले की सफाई एवं निर्माण का कार्य ।					
6-	ब्रज नगर के पीछे छोटी रेलवे लाइन की पुलिया के पास स्थित अनिल गौतम के मकान से बड़ी रेलवे लाइन की पुलिया तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ।	10,14,867.30	1,02,000.00	525.00	सी	दो माह
7-	रुकमणी विहार आवासीय योजना स्थित पार्को में वृक्षारोपण का कार्य (तीन वर्ष के अनुरक्षण सहित)	5,31,136.00	53,200.00	315.00	-	एक माह

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए प्राधिकरण की शर्तों पर मुहरबन्द निविदायें दिनांक 02.07.2015 को दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक सचिव कक्ष/प्राधिकरण सभागार में रखे बाँक्स में प्राप्त की जायेंगी तथा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे 1- क्रम संख्या-1 पर अंकित कार्य की निविदा प्राधिकरण में विद्युत कार्यों हेतु विद्युत में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की मान्य होगी । क्रम संख्या-2 से 6 पर वर्णित कार्य की निविदा सिविल कार्यों हेतु सिविल में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की मान्य होगी । क्रम संख्या-7 पर वर्णित कार्य की निविदा हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है परंतु उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदादाता निविदा देने से पूर्व कार्यस्थल, स्थिति एवं दशाओं का भली-भाँति निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन कर लें। निविदा स्वीकृति के बाद कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य नहीं होगा । सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08,टी०सी० दिनांक 08 जून 2012 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में “कट आफ लिमिट” से प्रतिशत बिलो टेण्डर पर कार्य स्वीकार करने के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत बिलो (निम्न) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (निम्न) दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी, राष्ट्रीकृत बैंक की एफ०डी०आर०/बैंक गारण्टी/एन०एस०सी० जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बंधक हो, जमा करायी जायेगी ।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों विनियम) अधिनियम 1996 तथा प्रदेश नियमावली वर्ष 2009 के अन्तर्गत अधिष्ठानों व श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार कराना अनिवार्य होगा ।
- शासन द्वारा समय-समय पर जो टैक्स निर्धारित किया जायेगा, उसकी कटौती ठेकेदार के बिल से नियमानुसार की जायेगी
- यदि कार्य में सर्विस टैक्स की देयता होगी तो उक्त के जमा कराने के साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर सर्विस टैक्स की धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी ।
- उपरोक्त कार्यों के निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मयूर बिहार, मथुरा से निर्धारित निविदा मूल्य जमा कर क्रय किये जा सकते हैं ।

नोट:- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलीभाँति पढ़ व समझ लें । निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा । निविदा की शर्तें प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण की वैबसाइट [www.mvdamathura.com](http://www.mvdamathura.com) पर देखा जा सकता है ।